

SURAJ INDUSTRIES LTD

Registered Office -Plot No. 2 Phase-3, Sansarpur Terrace, Distt. Kangra, H.P.-173212

CIN: L26943HP1992PLC016791

Email id- secretarial@surajindustries.org; **Website-** www.surajindustries.org

Telephone No: 01970-256414

February 15, 2025

To,
The Executive Director
BSE Limited
Floor 25, P J Towers
Dalal Street, Mumbai-400001

Scrip Code: 526211

Subject: Intimation of the publication of Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2024.

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, we enclose herewith the newspaper clipping regarding publication of Extract of Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2024 published in the following newspapers:

- 1. The Financial Express (English)**
- 2. Jansatta (Hindi)**

Kindly take note of the same and acknowledge the receipt.

Thanking You,
Yours Truly,
Suraj Industries Ltd

Snehlata Sharma
Company Secretary & Compliance officer

Encl: As Above

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम
Union Bank of India
A Government of India Undertaking

Branch Office : Near Ashoka Cinema, Chandana Gate Rd, Kaithal
Email Id : ubin0538779@unionbankofindia.bank

NOTICE TO THE BORROWER INFORMING ABOUT SALE (30 DAYS NOTICE) RULE 8(6) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002
Date : 20.12.2024

To, (1) M/s Luxmi Poultry Farm through its proprietor Shri Jora Singh S/o Sukhi Ram, Rapria Patti, Balu, Kaithal, Haryana - 136117 (Borrower),
(2) Shri Balinder S/o Prithvi, Rapria Patti, Balu, Kaithal, Haryana - 136117 (Guarantor),
(3) Shri Jora Singh S/o Sukhi Ram, Rapria Patti, Balu, Kaithal, Haryana - 136117 (Proprietor).
Sir/Madam,

SUBJECT: SALE OF PROPERTY BELONGING TO SHRI JORA SINGH S/O SHRI SUKHI RAM FOR REALIZATION OF AMOUNT DUE TO BANK UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002
Union Bank of India, Kaithal Main Branch, Kaithal Address: Near Ashoka Cinema, Chandana Gate Rd, Kaithal, the secured creditor, caused a demand notice dated 18.11.2023 under Section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002, calling upon you to pay the dues within the time stipulated therein. Since you failed to comply with the said notice within the period stipulated, the Authorized Officer, has taken possession of the immovable secured assets under Section 13(4) of the Act read with Rule 6 and Rule 8 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 10.12.2024.
Even after taking possession of the secured assets, you have not paid the amount due to Bank. As such, it has become necessary to sell the below mentioned property by holding public e-auction after 30 days from the date of receipt of this notice through online mode.
The date and time of e-auction along with the reserve price of the property and the details of the service provider, in which the e-auction to be conducted, shall be informed to you separately.
Therefore, if you pay the amount due to the bank along with subsequent interests, costs, charges and expenses incurred by the Bank before the date of publication of sale notice, no further action shall be taken for sale of the property and you can redeem your property as stipulated in section 13 (8) of the Act.

SCHEDULE OF THE PROPERTY
All the Part and Parcel of Property (Poultry Farm) constructed on land measuring 0.27 acre comprised in Khewat No. 1036/996 Khatoni No. 1156 to 1159 Kittas 37 situated at Tara Garh Road Village Balu Tehsil Kalayat Dist. Kaithal within panchayat limit of Balu owned by Sh. Jora Singh So Sh. Sukhi Ram. North - Agriculture land of other, South - Mettalled taragarh Road, East - Agriculture land of other, West - Agriculture land of other.

Date : 20.12.2024 Place : Kaithal Authorised Officer, Union Bank of India

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम
Union Bank of India
A Government of India Undertaking

Branch Office : Near Ashoka Cinema, Chandana Gate Rd, Kaithal
Email Id : ubin0538779@unionbankofindia.bank

NOTICE TO THE BORROWER INFORMING ABOUT SALE (30 DAYS NOTICE) RULE 8(6) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002
Date : 20.12.2024

To, (1) Shri Rajinder Puri S/o Ram Parsad R/o H. No. 639A/1, Gali No 01, Arjun Nagar, Patti Afgan, Kaithal, Haryana - 136027 (Borrower),
(2) Shri Surjeet Singh S/o Baiwant Singh R/o H No. 75/2, Gali No 02, Arjun Nagar, Kaithal - Haryana -136027 (Guarantor)
(3) Shri Pardeep Kumar S/o Ram Parsad R/o H. No. 639A/1, Gali No. 01, Arjun Nagar, Patti Afgan, Kaithal, Haryana - 136027 (Borrower).
Sir/Madam,

SUBJECT: SALE OF PROPERTY BELONGING TO SHRI RAJINDER PURI S/O SHRI RAM PARSAD & SHRI PARDEEP KUMAR S/O SHRI RAM PARSAD FOR REALIZATION OF AMOUNT DUE TO BANK UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002
Union Bank of India, Kaithal Main Branch, Kaithal Address: Near Ashoka Cinema, Chandana Gate Rd, Kaithal, the secured creditor, caused a demand notice dated 13.09.2024 under Section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002, calling upon you to pay the dues within the time stipulated therein. Since you failed to comply with the said notice within the period stipulated, the Authorized Officer, has taken possession of the immovable secured assets under Section 13(4) of the Act read with Rule 6 and Rule 8 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 10.12.2024.
Even after taking possession of the secured assets, you have not paid the amount due to Bank. As such, it has become necessary to sell the below mentioned property by holding public e-auction after 30 days from the date of receipt of this notice through online mode.
The date and time of e-auction along with the reserve price of the property and the details of the service provider, in which the e-auction to be conducted, shall be informed to you separately.
Therefore, if you pay the amount due to the bank along with subsequent interests, costs, charges and expenses incurred by the Bank before the date of publication of sale notice, no further action shall be taken for sale of the property and you can redeem your property as stipulated in section 13 (8) of the Act.

SCHEDULE OF THE PROPERTY
All the part & parcel Residential House measuring 235 Sq. Yd with MCK No. 639a/1, Part of Rect No. 182, Killa No. 24/2 min at patti afgan, Arjun Nagar, Kaithal owned by Shri Rajinder Puri and Shri Pardeep Puri vide Sale Deed No. 4561/1 Dtd. 08.12.2003, North - Hosue of other, South - Road, East - Plot of Ramprasad, West - Property of Jot Ram.

Date : 20.12.2024 Place : Kaithal Authorised Officer, Union Bank of India

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

SURAJ INDUSTRIES LTD
CIN: L26943HP1992PLC016791
Regd. Office: Plot No. 2, Phase III, Sansarpur Terrace, Kangra, Himachal Pradesh-173212
Corporate Office: F-32/3, Second Floor, Dkhia Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020
Website: www.surajindustries.org Email ID: secretary@surajindustries.org

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024 (in Lacs)

S. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Quarter Ended	Nine Months Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Nine Months Ended	Quarter Ended
		31.12.2024 (Unaudited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)
1	Total income from operations (net)	453.12	2401.96	1006.77	453.83	2403.27	1022.54
2	Profit / (Loss) from ordinary activities (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(88.58)	(95.02)	6.36	115.37	507.24	60.76
3	Profit / (Loss) before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(88.58)	(95.02)	6.36	115.37	507.24	60.76
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	(66.28)	(71.12)	(5.42)	137.67	531.15	48.98
5	Total Comprehensive Income for the period	(66.28)	(71.12)	(5.42)	137.67	531.15	48.98
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	1582.94	1582.94	1284.59	1582.94	1582.94	1284.59
7	Reserve (excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year)						
8	Earnings per share (Face value of Rs. 10/- Each) Before and After Extraordinary items - Basic & Diluted (* Not Annualized)	(0.50) (0.50)	(0.42) (0.42)	(0.04) (0.04)	*0.87 *0.87	*3.76 *3.76	*0.38 *0.38

Note:

- The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of directors at their respective meetings held on February 14, 2025. These financial results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended) (IND AS) prescribed under Section 133 of the of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.
- The company has two business segments- (a) Liquor Operations (b) Trading Operations. The Segment reporting is being accordingly made.
- Previous period's figures have been regrouped/ re-arranged, wherever necessary.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the stock exchange and on the Company's website www.surajindustries.org.

By order of the Board
For Suraj Industries Ltd
Sd/-
Suraj Prakash Gupta
Managing Director

Place : New Delhi
Date : 14.02.2025

PRIME INDUSTRIES LIMITED
Regd. & Head Office : Master Chambers, 19, Feroze Gandhi Market, Ludhiana (Punjab)
(CIN: L15490PB1992PLC012662), Email : prime_indust@yahoo.com,
Website : www.primeindustrieslimited.com, Phone No. 0161-5043500

Un-Audited Financial Results for the Quarter and nine months ended 31.12.2024 (Rs. in Millions)

Particulars	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended
	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024
Total income from operations (net)	15.17	8.88	29.47	137.99	155.04
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	10.89	2.92	15.65	120.36	118.42
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	8.15	4.62	11.71	110.36	108.42
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	8.15	4.62	11.71	3.27	1.33
Equity Share Capital	78.63	78.63	78.63	78.63	78.63
Earnings Per share (before/after extraordinary items) (of Rs. 5/- each) (in Rs./-)					
Basic	0.52	0.29	0.75	7.05	6.93
Diluted	0.40	0.29	0.57	7.05	5.27

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2024, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-audited Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2024 is available on Company's website : www.primeindustrieslimited.com and also on the BSE website : www.bseindia.com.

For Prime Industries Limited
Sd/-
Rajinder Kumar Singhania
Managing Director
DIN - 00077540

Place: Ludhiana
Dated: 13.02.2025

E-AUCTION SALE NOTICE 20.03.2025 11:00 Hrs. to 16:00 Hrs.

SBI STATE BANK OF INDIA
STRESSED ASSETS MANAGEMENT (SAM) BRANCH, GROUND FLOOR, ZONAL BUSINESS OFFICE BUILDING, FOUNTAIN CHOWK, CIVIL LINES, LUDHIANA

E-AUCTION SALE NOTICE 20.03.2025 11:00 Hrs. to 16:00 Hrs.

PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES ON 20.03.2025, 11:00 HRS. TO 16:00 HRS. THE EARNEST MONEY IS TO BE DEPOSITED ALONG WITH KYC DOCUMENTS ONLINE AT THE WEB PORTAL <https://baanknet.com/eaction-psb/bidder-registration> ON OR BEFORE 19.03.2025

E-Auction Sale Notice for Sale of Movable and Immovable properties under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provision to Rule 8 (6) & 6(2) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrowers and guarantors that the below described immovable properties mortgaged/charged to State Bank of India (Secured Creditor), the constructive/symbolic/physical possession of these properties has been taken by the Authorised Officers of State Bank of India (Secured Creditor), will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis on 20.03.2025 for recovery of bank dues + interest (as mentioned below against the properties) due to the State Bank of India (Secured Creditor) from below mentioned borrowers/guarantors. The Reserve Price and Earnest Money Deposit will be as mentioned below against the properties.

Detailed terms and conditions of the sale are mentioned below/refer to Website:(a) <https://sbi.co.in> (b) <https://baanknet.com/eaction-psb/bidder-registration>

Sr. Nos.	Name of Borrower(s)/ Guarantor(s)	Amount Outstanding Possession Date	Properties ID Nos & Details of property/ies	Reserve Price EMD Bid Increase Amt.	Date & Time of inspection of property	Date/ Time of e-Auction
1.	(1) M/s Agartala Rubber Industry, Reg. Office at Kuber House, Near Sahnewal Airport, Jugiana, Ludhiana, Punjab-141010. (2) Sh. Rohit Kapoor S/o Sh. Joginder Pal Kapoor R/o 56-J, Sarabha Nagar, Ludhiana -141001. (3) Smt Kuku Kapoor W/o Sh. Joginder Pal Kapoor R/o- 56-J, Sarabha Nagar, Ludhiana -141001. (4) Smt Aarti Kapoor W/o Sh. Rohit Kapoor R/o 56-J, Sarabha Nagar, Ludhiana- 141001. (5) M/s Kuber (India) Sales Pvt Ltd., Reg. Off Kuber House, Near Sahnewal Airport, Jugiana, Ludhiana- 141010. (6) M/s Agartala Rubber Industry, Rubber Park, Bodhjung Nagar, Industrial Growth Centre, West Tripura, Distt. Tripura -799210.	Amount as per 13(2) - Rs. 34,85,66,190.21 + as on 30.07.2019 (plus further interest at agreed rate and other expenses and other charges Demand Notice Date : 01.08.2019 Physical Possession Date : 01.01.2025	PROPERTY ID SBIN400002620692 : Residential Flat No. 601, 6th Floor in Block A-2 at Reliant Infrastructure (P) Ltd. Village Sante Majra, Tehsil Khara on Kharar Banur Road Distt. SAS Nagar Mohali Measuring 1700 Sq. Ft. registered in the name of Sh. Rohit Kapoor.	Rs. 44.00 Lacs Rs. 4.40 Lacs Rs. 0.50 Lacs	12.03.2025 11:00 Hrs. to 16:00 Hrs.	20.03.2025 11:00 Hrs. to 16:00 Hrs.

THIS PUBLICATION IS ALSO 15/30 DAYS NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002 TO THE ABOVE BORROWERS & GUARANTORS

Terms and Conditions of the E-auction are as under :- (1) E-auction is being held on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis and will be conducted "On Line". The auction will be conducted through the service provider Web Portal (<https://baanknet.com>). E-auction Tender document containing online e-auction bid form, declaration, General Terms & Conditions of Online auction sale are available in websites : (a) <https://sbi.co.in> (b) <https://baanknet.com> (2) To the best of knowledge and information of the Authorised Officer, there is no encumbrance on the properties. However, the intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of properties put on auction and claims / rights / dues / affecting the properties, prior to submitting their bid. The e-auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or any representation of the bank. The properties are being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to the bank. The Authorised Officer / Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party claims / rights / dues. (3) Interested bidder may deposit Pre-bid EMD with PSB Alliance Pvt. Ltd. before the close of e-auction. Credit of Pre-bid EMD shall be given to the bidder only after receipt of payment in <https://baanknet.com> Bank account and updation of such information in the e-auction website. This may take some time as per banking process and hence bidders, in their own interest, are advised to submit the pre-bid EMD amount well in advance to avoid any last minute problem. (4) In case of sole bidder, he/she has to increase minimum 1 Bid from Reserve Price. (5) The intending bidders should submit the evidence for EMD deposit like UTR number/online Transaction number along with Request Letter for participation in the E-auction, self attested copies of (a) Proof of Identification (KYC) viz. Voter ID Card / Driving Licence / Passport etc. (b) Current Address Proof for communication, (c) PAN card of the bidder (d) Valid e-mail ID (e) contact number (Mobile / Land line) of the bidders etc. to the Authorized Officer of above mentioned Branch of State Bank of India. (6) It shall be the responsibility of the interested bidders to inspect and satisfy themselves about the properties before submission of the bid. (7) The e-Auction / bidding of above properties would be conducted exactly on the scheduled Date and Time as mentioned above by way of inter-se bidding amongst the bidders. The bidders shall improve their offer in multiple of the amount mentioned under the column "Bid Increment/Amount" against each property. In case bid is placed in the last 10 minutes of the closing time of the e-auction, the closing time will automatically get extended for 10 minutes. The bidder who submits the highest bid amount (not below the Reserve Price) on closure of e-auction process shall be declared as Successful Bidder and a Communication to that effect will be issued through electronic mode which shall be subject to approval by the Authorised Officer / Secured Creditor (8) The Earnest Money Deposit (EMD) of the successful bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of unsuccessful bidders shall be refunded. The Earnest Money Deposit shall not bear any interest. The successful bidders shall have to deposit 25% of the sale price including EMD already paid, immediately on acceptance of bid price by the Authorised Officer & the balance of the sale price on or before 15th day of sale. The auction sale is subject to confirmation by the Bank. Default in deposit of amount by the successful bidders would entail forfeiture of the whole money already deposited and property shall be put to re-auction and the defaulting bidders shall have no claim / right in respect of property/amount. (9) The prospective qualified bidders may avail online training on e-Auction from PSB Alliance Pvt. Ltd. prior to the date of e-auction. Neither the Authorised Officer / Bank nor PSB Alliance Pvt. Ltd., will be held responsible for any Internet Network Problem / Power failure / any other technical lapses / failure etc. In order to ward-off such contingent situation the interested bidders are requested to ensure that they are technically well equipped with adequate power backup etc. for successfully participating in the e-Auction event. (10) The purchaser shall bear the applicable stamp duties / registration fee/other charges, etc. and also all the statutory/non-statutory dues, taxes, assessment charges, etc. owing to anybody. (11) The Authorised Officers / Bank is not bound to accept the highest offer and has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn / postpone / cancel the e-auction or withdraw any property or portion thereof from the auction proceedings at any stage without assigning any reason therefor. (12) The Sale Certificate will be issued in the name of the purchasers / applicants only and will not be issued in any other names. (13) The sale shall be subject to rules / conditions prescribed under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. For further details / enquires if any on the terms and conditions of sale can be obtained from Authorised Officer / State Bank of India of above mentioned Branches or Bank's website (a) <https://sbi.co.in> (b) <https://baanknet.com> (14) For further details regarding the above properties / inspection of properties, the intending buyers may contact above mentioned Branches of State Bank of India, Authorised Officer/Contact Person: Mr. Virender K Karwal, Mobile No. 8288067301 and Mr. Devender Kumar, Mobile No. 9316307706, E-mail: sbi.15631@sbi.co.in. All the intending purchasers are also advised to visit <https://baanknet.com> for any information on procedure of e-auction (15) The Authorised Officer or Bank shall not be responsible for any charge, lien, encumbrances or any other dues to the Government or anyone else in respect of immovable properties e-auction. (16) The Bidders should get themselves registered on <https://baanknet.com> by providing requisite KYC documents and registration fee as per the practice followed by PSB Alliance Pvt. Ltd. well before the auction date. The registration process takes minimum of two working days. (Registration process is detailed on the above website). (17) The Intending bidder should transfer his EMD amount by means of challan generated on his bidder account maintained with PSB Alliance Pvt. Ltd. at <https://baanknet.com> by means of NEFT/ RTGS/Online Transaction/transfer from his bank account. (18) The Intending bidder should take care that the EMD is transferred at least one day before the date of auction and confirm that this wallet maintained with PSB Alliance Pvt. Ltd. is reflecting the EMD amount without which the system will not allow the bidder to participate in the e-auction. (19) The EMD of the unsuccessful bidder will be refunded to their respective wallet maintained with PSB Alliance Pvt. Ltd.. The Bidder has to place a request with PSB Alliance Pvt. Ltd. for refund of the same back to his bank account. The bidders will not be entitled to claim any interest, costs, expenses and any other charges (if any).

DATE : 14.02.2025 PLACE : LUDHIANA AUTHORISED OFFICER, STATE BANK OF INDIA

नोवा आयरन एण्ड स्टील लि.
पंजी. कार्या: गांव-झांगी, तहसील बेला, जिला- बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
ई-मेल: rai_nisl2007@yahoo.com वेबसाइट: www.novaironsteel.com

मैगनम वैचर्स लिमिटेड
सीआईएन : L21093DL1980PLC010492
पंजीकृत कार्यालय: कमरा नं. 118, प्रथम तल, एमजीएम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, 4634/1, प्लॉट नं. 19, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली-110 0 0 2

सूरज इंडस्ट्रीज लिमिटेड
सीआईएन: L28943HP1982PLC016791
पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. 2, फेज III, बंधारापुर ट्रेडिंग, कॉम्प्लेक्स, विद्यालय प्रदेस-173212

विवरण
क्र. सं. विवरण
1. प्रचालन से कुल आय
2. अर्धिक के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशेष तथा/या असाधारण मदों के बाद)

विवरण
क्र. सं. विवरण
1. प्रचालन से कुल आय (शुद्ध)
2. अर्धिक के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से पहले, असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)

विवरण
क्र. सं. विवरण
1. प्रचालन से कुल आय (शुद्ध)
2. अर्धिक के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)

प्रण सं. 3
विविध-15 (1)(ए), 16(9) देखें
ऋण वसूली अधिकरण जयपुर
प्रथम तल, सुधर्म-11, लाल कोठी रोड, टॉक रोड, जयपुर- 302015

शाकुम्भरी पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड
सीआईएन: L21012UP1986PLC007671
पंजीकृत कार्यालय: 4.5 कि.मी. भांगा रोड, मुजफ्फरनगर-251001, उत्तर प्रदेश

SMC CREDITS LIMITED
24, Ashoka Chambers, 5-B, Rajindra Park, Pusa Road, New Delhi-110060
CIN: L65910DL1992PLC049566 Website www.smccredits.com

वैसाई, ओ.ए. / 1153 / 2024
माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष 23-09-2024 को सूचीबद्ध किया गया था।
जबकि, यह माननीय अधिकरण रु. 76,90,004/- के ऋणों की वसूली हेतु आपको विरुद्ध उपरोक्त अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत दाखिल उक्त आवेदन, (ओ.ए.) पर न्यायालयी आदेश अर्थात् सम्मन / सूचना निर्गत करके संतुष्ट है (प्रलेखों इत्यादि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न है)।

विवरण
क्र. सं. विवरण
1. प्रचालन से कुल आय
2. अर्धिक के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से पहले और असाधारण मदों के बाद)

Particulars
Quarter Ended
31.12.2024
30.09.2024
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.03.2024
31.03.2024
31.03.2024

LADDU GOPAL ONLINE SERVICES LIMITED
(Formerly known as ETT Limited)
CIN: L90009DL1993PLC123728
Registered Office: House No. 503/12, Main Bazar, Sabzi Mandi, Shakti Nagar, North Delhi-110007

CAPITAL INDIA
Rediscover Business
कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड
CIN: L74899DL1994PLC128577
पंजीकृत कार्यालय: 701, 7वीं मंजिल, अग्रवाल कॉर्पोरेट टॉवर, प्लॉट नंबर 23, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

प्रारूप संख्या आईएनसी-26
[कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन